

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 16 अक्टूबर 2022

प्रश्न -1

ओमारा डेट्स ने निम्नलिखित में से किसे अपना ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया है?

- A) अजय देवगन
- B) अमिताभ बच्चन
- C) रणबीर कपूर
- D) सलमान खान

सही उत्तर: B

हेल्दी स्नैक्स ब्रांड ओमारा डेट्स ने अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एंबेसडर बनाया है।

प्रश्न -2

निम्नलिखित में से किस राज्य ने आर्थिक सहयोग के लिए दुबई सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए?

- A) हरियाणा
- B) कर्नाटक
- C) राजस्थान
- D) पश्चिम बंगाल

सही उत्तर: A

हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि दुबई सरकार ने विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में सहयोग के लिए इसके साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) को अंतिम रूप दिया है।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 16 अक्टूबर 2022

प्रश्न -3

भारतीय वायु सेना दिवस कब मनाया गया?

- A) 10 अक्टूबर
- B) 09 अक्टूबर
- C) 08 अक्टूबर
- D) 07 अक्टूबर

सही उत्तर: C

देश 08 अक्टूबर को भारतीय वायु सेना दिवस मनाता है। इस वर्ष भारतीय वायु सेना दिवस की 90वीं वर्षगांठ है।

प्रश्न -4

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया?

- A) 15 अक्टूबर
- B) 14 अक्टूबर
- C) 12 अक्टूबर
- D) 10 अक्टूबर

सही उत्तर: D

दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है।

प्रश्न -5

निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया था?

- A) अजरखपुर
- B) खावदा
- C) माधापुर
- D) मोढेरा

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 16 अक्टूबर 2022

सही उत्तर: D

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गुजरात के मेहसाणा जिले के एक गांव मोढेरा को भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है।

प्रश्न -6

निम्नलिखित में से किस देश ने 'काफौ-1' उपग्रह लॉन्च किया है?

- A) चीन
- B) जापान
- C) उत्तर कोरिया
- D) दक्षिण कोरिया

सही उत्तर: A

चीन ने सूर्य को एक नई रोशनी में देखने और हमारे सौर मंडल में तारे के रहस्यों को जानने के लिए 'काफौ-1' नामक एक नया उपग्रह लॉन्च किया है।

प्रश्न -7

निम्नलिखित में से किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का हाल ही में निधन हो गया है?

- A) बिहार
- B) मध्य प्रदेश
- C) महाराष्ट्र
- D) उत्तर प्रदेश

सही उत्तर: D

समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव का हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने पहली बार 1989 में यूपी के 15वें सीएम के रूप में शपथ ली थी।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 16 अक्टूबर 2022

प्रश्न -8

निम्नलिखित में से किस सशस्त्र बल के लिए भारत सरकार ने एक नई हथियार प्रणाली शाखा के निर्माण को मंजूरी दी है?

- A) भारतीय नौसेना
- B) भारतीय तटरक्षक बल
- C) भारतीय सेना
- D) भारतीय वायु सेना

सही उत्तर: D

युद्ध लड़ने की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने भारतीय वायु सेना में नई हथियार प्रणाली शाखा के निर्माण को मंजूरी दे दी है।

प्रश्न -9

किस कंपनी ने मेड-इन-इंडिया ड्रोन 'ड्रोनी' विकसित किया है?

- A) आर्क ड्रोन
- B) गरुड़ एयरोस्पेस
- C) हॉकिंग इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड
- D) ट्रस्टेड एयरोस्पेस इंजीनियरिंग प्रा. लिमिटेड

सही उत्तर: B

भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एम.एस. धोनी ने ड्रोन निर्माण कंपनी गरुड़ एयरोस्पेस द्वारा विकसित 'ड्रोनी' नामक एक कैमरा ड्रोन का अनावरण किया है।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 16 अक्टूबर 2022

प्रश्न -10

अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया?

- A) 20 अक्टूबर
- B) 15 अक्टूबर
- C) 11 अक्टूबर
- D) 10 अक्टूबर

सही उत्तर: C

अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पहली बार 11 अक्टूबर 2012 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया गया था।